



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]
No. 624]नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2002/आषाढ़ 21, 1924
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2002/ASADHA 21, 1924

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2002

का.आ. 736(अ).—केन्द्रीय सरकार ने स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् खाद्यान्न और चीनी के लिए अनिवार्य पैकिंग मानों के प्रगामी तनूकरण के लिए दिशा मानचित्र को तैयार करने के लिए अंतर अनुसचिबीय समिति का गठन किया था।

2. अंतर अनुसचिबीय समिति ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् और सभी संबंधित व्यक्तियों के विचार सुनने के पश्चात् अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी थीं और केन्द्रीय सरकार का उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि कच्चे जूट के उत्पादन और उसके उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हित में जूट पैकिंग सामग्री में खाद्यान्न और चीनी का कतिपय प्रतिशत पैक करना आवश्यक है।

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं, अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित अवधि के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशतता में पूर्ति या वितरण के लिए जूट पैकेज सामग्री में पैक की जाएगी।

अनुसूची

क्र. सं.	अवधि	वस्तु	भारत में उत्पादित कच्चे जूट से भारत में विनिर्मित जूट पैकेज सामग्री में पैक किए जाने के लिए अपेक्षित वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के कुल उत्पादन की प्रतिशतता
1	2	3	4
(i)	12 जुलाई, 2002 से 30 जून, 2003	खाद्यान्न	अस्सी प्रतिशत (80%)
		चीनी	पचहत्तर प्रतिशत (75%)
(ii)	1 जुलाई, 2003 से 30 जून, 2004	खाद्यान्न	साठ प्रतिशत (60%)
		चीनी	पचास प्रतिशत (50%)

4. खाद्यान्न और चीनी के संबंध में दस कि.ग्रा. या उससे कम के छोटे उपभोक्ता पैकों को और निर्यात पैकों को इस आदेश के प्रवर्तन से छूट होगी।

5. "विटामिनो से युक्त पौष्टिक चीनी" को इस आदेश के विस्तार क्षेत्र से छूट प्राप्त होगी।

[फा. सं. 9/8/2001-जूट]

किरण धींगरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 12th July, 2002

S.O. 736(E).—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, constituted an Inter-Ministerial Committee to formulate a road map for progressive dilution of compulsory packaging norms for foodgrains and sugar.

2. Whereas the Inter-Ministerial Committee, after considering the various aspects of the matter and after hearing the views of all concerned, submitted its recommendations to the Government, and the Central Government, after considering the above recommendations, is satisfied that it is necessary to pack certain percentage of foodgrains and sugar in jute packaging material in the interest of the production of raw jute and of persons engaged in the production thereof.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with sub-section (1) of Section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the commodities specified in the column (3) of the Schedule below, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule for the period as mentioned in column (2) of the Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Period	Commodities	Percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute, produced in India
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	12th July, 2002 to 30th June, 2003	Foodgrains Sugar	Eighty per cent (80%) Seventy five per cent (75%)
(ii)	1st July, 2003 to 30th June, 2004	Foodgrains Sugar	Sixty per cent (60%) Fifty per cent (50%)

4. Small consumer packs of ten kilograms and below and export packing in respect of foodgrains and sugar shall be exempted from the operation of this order.

5. "Sugar fortified with vitamins" shall be exempted from the purview of this order.

[F. No. 9/8/2001-Jutc]

KIRAN DHINGRA, Jt. Secy.